

धोरेम् परमात्मा जयति ॥

दयानन्दमत दर्पण ।

मुरादाबाद निवास

मुंशी जगन्नाथदास सकलित ।

पञ्चमवार
१०००

संवत् १९७५
सन् १९१६

{ मूल्य) ॥
{ २) में १००

Printed and Published By P. Brahmadeva
misra at the Brahma Press—Etawah.

परमात्मा जयति ॥

दयानन्दमत दर्पण ।

रचा सब सृष्टिको जिसने उसी को सर भुकाओ जी ।

करो तुम ध्यान उसका हो उसी से लौं लगाओ जी ॥ १ ॥

तुम्हें अब मत दयानन्दी का चार्ते कुछ सुनाता हूँ ।

जगत् को जाल में उसके वृथा तुम मत फसाओ जी ॥ २ ॥

लिखीं ग्यारहसौ सत्ताइस शाखा उसने वेदोंकी ।

जरा महाभाष्य से स्वामी का लेख अपने मिलाओ जी ॥ ३ ॥

लिखा है उसने शाखाओं को जो व्याख्यान वेदों का ।

किसी शाखोंमें तो व्याख्या श्रुतिकी तुम दिखाओ जी ॥ ४ ॥

जिन्हें तुम वेद कहते हो वह शाखा शाकलादि हैं ।

न समझो वेद शाखाओं को तो वेद और लामो जी ॥ ५ ॥

लिखा है वेद की व्याख्या में हा घघ नीलगायों का ।

यजु के भाष्य से इसको कृपा करके मिटाओ जी ॥ ६ ॥

लिखा है नाचना गाना बजाना स्वामी साहित्य ने ।

बुरा जो तुम नहीं जानो तो सीखो भी सिखाओ जी ॥ ७ ॥

३-४ सत्यार्थप्रकाश मुद्रित सन् १८८४ का पृष्ठ ५८७ ॥

६ दयानन्द कृत यजुर्वेद भाष्य अ० १३ मं० ४६ का भावार्थ

● उक्त भाष्य अध्याय ३० मंत्र २० का भावार्थ ॥

यजु के भाष्य में उसने लिखा: धी: दूध: वकरे: का: ।
 कहो जो तुम कहीं ऐसा तो जड़ बुद्धि कहाओ जी ॥ ८ ॥

जा वृद्धी चाही सांपों की कहां बुद्धी तुम्हारी है ।

जगत् को इससे दु:ख होगा कि सुख तुम्हें बताओ जी ॥ ९ ॥

लिखा गुरु जी का जो मानो तो उल्लू को भी पालो तुम ।

ये स्वामीजी की आज्ञा है गर्धों को भी बढ़ाओ जी ॥ १० ॥

अरे वैश्यो ! तुम्हें उस ने लिखा है ऊंट के सदृश ।

बनाये जो पशु तुमको उसे गुरु क्यों बनाओ जी ॥ ११ ॥

लिखी शूकर की जो उपमा उस अज्ञानी ने भूपति को ।

उचित है तो किसी राजाको तुम जाकर सुनाओ जी ॥ १२ ॥

लिखा तुम वेद और ईश्वर की आज्ञा का करो पालन ।

समंजस है कि असमंजस ये लेख उसका बताओ जी ॥ १३ ॥

८ उक्त भाष्य अध्याय २१ मन्त्र ४३ का पदार्थ ।

९ उक्त भाष्य अ० ३० मन्त्र २१ का पदार्थ ।

१० उक्त भाष्य अ० २४ मन्त्र २३ का पदार्थ । तथा अध्याय

१६ मन्त्र ३१ का पदार्थ ।

११ उक्त भाष्य अध्याय १४ मन्त्र ६ का पदार्थ ।

१२ उक्त भाष्य अध्याय १६ मन्त्र ५२ का पदार्थ ।

१३ उक्त भाष्य अध्याय १० मन्त्र २२ का पदार्थ ।

लिखा विद्वान् को उसने जो जामाता को सदृश है ।

हंसो उस बुद्धि पर उसकी जगत् को तुम हंसाओ जी ॥ १४ ॥

अनृतवादी को लिखा है असुर राक्षस प्रकट उसने ।

उसे इस दोष से कैसे भला अथ तुम यनाओ जी ॥ १५ ॥

जिसे सत्यार्थ कहते हो असत् ही की वह खानि है ।

सुनाऊँ मैं अनृत उसका सुनो सबको सुनाओ जी ॥ १६ ॥

लिखा है पूतना का अंग जैसा चौड़ा और लम्बा ।

जरा एक भागवत में तो हमें वैसा दिखाओ जी ॥ १७ ॥

कथा प्रह्लाद की जो कुछ कि स्वामी जी ने गाई है ।

असत् है झूठ है मिथ्या है अनृत है मिटाओ जी ॥ १८ ॥

चटाई के सदृश पृथ्वी को राक्षस ने लपेटा था ।

ये जिस पुस्तक में लिखा हो उसे तुमही जलाओ जी ॥ १९ ॥

रथेन वायुघनेन जगाम गोकुलं प्रति ।

कहाँ है भागवत में यह दिखाओ जी दिखाओ जी ॥ २० ॥

भला हेमाद्रि में वर्णन कहाँ थी भागवत का है ।

१४ उक्त भोष्य अध्याय २७ मंत्र ३४ का पदार्थ ।

१५ उक्त भाष्य अध्याय १ मंत्र ५ का भावार्थ ।

१७ सत्यार्थप्रकाश मुद्रित सन् १८८४ का पृष्ठ ३३४

१८ । १९ उक्त सत्यार्थप्रकाश का पृष्ठ ३३३ ।

२० उक्त सत्यार्थप्रकाश का पृष्ठ ३३४ ।

ओ कुछ सन्देह है पढ़कर उसे तुम मन मनाओजी ॥ २१ ॥
व देवी भागवत में भी लिखी गाथा कहीं वैसी ।
कि जैसी भेषुणु शिव ग्रहा की निन्दा तुम सुनाओजी ॥ २२ ॥
ओ उसने एक स्त्री को पति ग्यारह की आशा दी ।
करो ये ही श्रुति से सद्ध परिदत को बुलाओ जी ॥ २३ ॥
लिखा है गर्मिणी को भी नियोग उसने जरा समझो ।
दुधारा गर्भ फिर कैसे भंला धारण कराओ जी ॥ २४ ॥
पति परदेश को जाये जने घर पत्नी सुते पीछे ।
गुरु की आज्ञा मानो तो धर्म उसका चलाओ जी ॥ २५ ॥
श्रुति के अर्थ में देखो किया कौसी अनर्थ उसने ।
पति कर दूसरा प्यारी ये पत्नी को सिखाओ जी ॥ २६ ॥
ये छापे की अशुद्धि है कि है अज्ञान गुरु जी का ।
बिना हठ और दुराग्रह के तुम्हीं सब रचताओ जी ॥ २७ ॥

२१ उक्त सत्यार्थप्रकाश का पृष्ठ ३३५ ।

२२ उक्त सत्यार्थप्रकाश का पृष्ठ २६६ ।

२३ उक्त सत्यार्थप्रकाश का पृष्ठ ११८ ।

२४ उक्त सत्यार्थप्रकाश का पृष्ठ १०० ।

२५ उक्त सत्यार्थप्रकाश का पृष्ठ ११६ ।

२६ उक्त सत्यार्थप्रकाश का पृष्ठ ११८ ।

कहीं भी। शोख में मुक्ति से लौट आना नहीं लिखना
जरा बातें करो, खीची-न उलटे भीत गाओजी ॥ २१ ॥
जो, काशगर और फांसी सदृश मुक्ति को वतलाये।
उसे मर्नों के अधिपति की कोई पगेड़ी, बंधायो जी ॥ २२ ॥
घबन को व्यास के जिसने, कहा, प्रतिकूल विदो के ।
हम उसको नास्तिक कहते हैं तुम, चाहो सो सोओजी ॥ २३ ॥
श्रुति प्रत्यक्ष कहती है, अनावृत्ति है मुक्ति से ।
विरुद्ध उनके बताकर, तुम भला क्या लाभ उठाओजी ॥ २४ ॥
कहो परमात्मा का नाम नारायण जो निज मुख से ।
तो है यह नास्तिकता जो बुरा, उसको बताओ जी ॥ २५ ॥
कहीं स्थिर नहीं चलना लिखा है उसने पृथ्वी का ।
भला इस दोष से, कैसे उसे अब, तुम, बचाओ जी ॥ २६ ॥

२८ उक्त सत्यार्थप्रकाश का पृष्ठ-२४० ।

२९ उक्त सत्यार्थप्रकाश का पृष्ठ-२४१ ।

३० उक्त सत्यार्थप्रकाश का पृष्ठ-२४६ ।

३२ उक्त सत्यार्थप्रकाश का पृष्ठ-१६ फिर २६ ।

३३ दूसरी बार की छपी संस्कार विधिके पृष्ठ १२६ में पृथ्वी
के स्थिर होने की श्रुति है और ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका के
पृष्ठ १३६ से १३६ तक तथा उक्त सत्यार्थप्रकाशके पृष्ठ २२८
में पृथ्वी का चलना लिखा है ॥

लिखे सौ वर्ष के दिन जो सो वह भी दशगुण लिखे ।
 तुम ऐसे मूर्ख को कैसे भला परिदत बताओ जी ॥ ३४ ॥
 जो भाषा ग्रन्थ सब मिथ्या हैं स्वामी जी की बुद्धि में ।
 तो फिर सत्यार्थको भी तुम नदी में अब धहाओ जी ॥ ३५ ॥
 मनु के इनोक से जो कुछ दशा वर्णों की लिखी है ।
 कहां आशय है वह उस का न झूठे गीत गाओजी ॥ ३६ ॥
 शिक्षा और सूत्र के त्यागी को ईसाई सदृश लिखें ।
 किया दोनों का त्याग उसने उसे तुम क्या बताओ जी ॥ ३७ ॥
 लिखा है युद्ध से भागे नृपति शत्रु को धोखा दे ।
 कहां गीता में है ऐसा ये धोखा तुम न खाओ जी ॥ ३८ ॥
 असुर राक्षस प्रशास उसने अविद्वानादि को लिखा ।
 जो हों ऐसे समाजों में उन्हें तुम क्या बताओ जी ॥ ३९ ॥
 हों गुण और सन्तानों में जिस २ वर्ण के सदृश ।
 तुम उस २ वर्ण से बदला सुतादिक का कराओ जी ॥ ४० ॥

३४ उक्त सत्यार्थप्रकाश का पृष्ठ २४१ ।

३५ उक्त सत्यार्थ० का पृष्ठ ७१ ।

३६ उक्त सत्यार्थ० का पृष्ठ ८८ ।

३७ उक्त सत्यार्थ० का पृष्ठ ३७६ ।

३८ सत्यार्थ० का पृष्ठ ६१ ।

३९ उक्त सत्यार्थ० का पृष्ठ ५८८ ।

४० उक्त सत्यार्थ० का पृष्ठ ८६ ।

जो इस आज्ञा का पालन ही तो हाहाकार मन्त्रजये ।

ये है किस वेद की आज्ञा कोई यह तो घनाओ जी ॥ ४१ ॥

लिखा जानश्रुति को शूद्र है यह अज्ञता कैसी ।

लिखा है व्यासने क्षात्रिय न अवे जिह्वा हिलाओ जी ॥ ४२ ॥

जो निर्जल जितके लेखक को कसाई लिख दिया उस ने ।

लिखा जिमने कि गोब्रधनक उसे तुम क्या बताओ जी ॥ ४३ ॥

लिखा है शूद्र को जब मन्त्र पढ़नेका निषेध उस ने ।

तो कैसे वेद का पढ़ना उसे फिर तुम बताओ जी ४४ ॥

लिखा सुख दुःख में परमन्त्र स्वामी जी ने जीवों को ।

तो फिर क्यों कर्म करनेमें स्वतन्त्र उन को घताओ जी ॥ ४५ ॥

कहां लिखा है शूद्र का हुआ मृत्यु का विष कारण ।

भला क्या दोष जेनी को वृथा भूटा लगाओ जी ॥ ४६ ॥

मनुके नामसे लिखा है धन सन्यासियों को दे ।

मनुमें श्लोक यह आधा लिखा गुरुका दिखाओ जी ॥ ४७ ॥

४२ उक्त सत्यार्थ० का पृ० ३३६ ।

४३ उक्त सत्यार्थ० का पृष्ठ ३४५ ।

४४ उक्त सत्यार्थ० का पृष्ठ ४४ फिर ७४ ।

४५ उक्त सत्यार्थ० का पृष्ठ ५६० ।

४६ उक्त सत्यार्थ० का पृष्ठ २६७ ।

४७ उक्त सत्यार्थ० का पृष्ठ १३६ ।

समित् पाणी अति उस ने लिखी माण्डूक्य की मिथ्या ।
मृपा अमिर्यथैको० को न मुण्डक का घताओ जी ॥ ४८ ॥
न देखे उस ने उपनिषद् को जो चाहो सोई लिख मारा ।
तदक्षत् तैत्तिरीयकी कहो झूठे कहाओ जी ॥ ४९ ॥
लिखा है नाम से वेदों के उस ने वाक्य गीता का ।
कहो चिद्वान् जो उस को तो वेदों में दिखाओ जी ॥ ५० ॥
मला जो आचमन से पित्त और कफ शान्त होता है ।
तो फिर रोग प्रसित होकर न वैधों को घुलाओ जी ॥ ५१ ॥
घिना भोगे नहीं छुटता कभी भयः तुम यह कहते हो ॥
तो प्रायश्चित्त पतितों को वृथा फिर क्यों कराओ जी ॥ ५२ ॥
अनन्त होने में जीवों के जो तुम भगडा मचाते हो ।
कहाँ तो शास्त्र में गणना हमें उन की दिखाओ जी ॥ ५३ ॥
नरक और स्वर्ग से लोको को भा जो तुम नहीं मानो ।

४८ उक्त सत्यार्थ० का पृष्ठ ३८२ फिर २६० ।

४९ उक्त सत्यार्थ० का पृष्ठ २१० ।

५० उक्त सत्यार्थ० का पृष्ठ १२६ ।

५१ उक्त सत्यार्थ० का पृष्ठ ४१ ।

५२ उक्त सत्यार्थ० का पृष्ठ ३२२ ।

५३ इस के खण्डन में भी मुन्शी इन्द्रमणि जी का अनन्तस्थ
प्रकाश देखो ॥

दिखाऊं वेद में दोनो निकट मेरे जो आभोजी ॥ ५४ ॥
ऋषि.मुनियों के बचनों को कहो प्रतिकूल वेदों के ।
तुम्हारी ही ये शक्ति है जो जी चाहो सो गाओ जी ॥ ५५ ॥
रसोईका बनाना काम शूद्रों का वह लिखता है ।
कहार और नार्द से बनवाओ रोटी दाल खाओजी ॥ ५६ ॥
नदी पर वृक्ष पर नक्षत्र पर हो नाम जिस त्रिय का ।
विवाह उससे है क्यों वर्जित बताओ जी बताओ जी ॥ ५७ ॥
लिखा है ग्रहण के निर्णयमें उस ने वाक्य छलबल से ।
कहां है वह शिरोमणि में कोई आओ दिखानो जी ॥ ५८ ॥
क्षी शिर पर घाल रखने से घटेगी बुद्धि पुरुषों की ।
तो फिर निज स्त्रियोंके शिर भी तुम निश्चय मुड़ाओजी ॥ ५९ ॥
जो तुम उपनयनको एक चिन्ह विद्या का बताते हो ।
अविद्वान् और शिशुको फिर जनेऊ क्यों पिन्हाओजी ॥ ६० ॥

५४ उक्त सत्यार्थ० का पृष्ठ ५६० ।

५५ उक्त सत्यार्थ० का पृष्ठ ५८७ ।

५६ उक्त सत्यार्थ० का पृष्ठ २६३ ।

५७ उक्त सत्यार्थ० का पृष्ठ ८० ।

५८ उक्त सत्यार्थ० का पृष्ठ ३३६ ॥

५९ उक्त सत्यार्थ० का पृष्ठ २५८ ॥

६० उक्त सत्यार्थ० का पृष्ठ २७८ । पृष्ठ २७६ ।

हों जिस मत में करोड़ों जन करो उसका न तुम खरडन ।

तुम्हीं झूठे हो जो उसके लिये झूठा बताओ जी ॥ ६१ ॥

ये स्वामी जी की युक्ति हैं उन्हें झूठा किया जिसने ।

हंसो इस बुद्धि पर कोई कोई आसू बहाओ जी ॥ ६२ ॥

लिखा उसने कि वेदों में भी अनुकूल हो सके ।

उसी को सत्य तुम जानो बिरुद्ध अनन बताओ जी ॥ ६३ ॥

किया है संवधा खरडन प्रकट यह उसने वेदों का ।

न समझे हो तो समझाऊ जो मेरे पास आओ जी ॥ ६४ ॥

बधू बलदेव की लिखला है उसने रोहिणी को हा ! ।

नहीं लड़जा कि माना को भी तुम पत्नी बताओ जी ॥ ६५ ॥

गधी सम गाय को लिखला भी लिखा उसने क्या कीजै ।

अक्षीराको दो जल तृण ये अघ तो मत कमाओ जी ॥ ६६ ॥

लिखी जीवों की उत्पत्ति गुरु ने देव ले तरे ।

अनादि फिर लिखा उनको बिरुद्ध पिसा न गोओ जी ॥ ६७ ॥

६१ उक्त सत्यार्थ० का पृष्ठ ५४६ १

६३ उक्त सत्यार्थ० का पृष्ठ ३८२ १

६५ सत्यार्थ० मुद्रित सन् १८६५ का पृष्ठ १०७ १

६६ उक्त सत्यार्थ० का पृष्ठ १४८ १

६७ उक्त सत्यार्थ० का पृष्ठ २३२ फिर सत्यार्थ० १८८४ का पृष्ठ २०६

लिखा है मांस से दो काल करना होम भी उसने ।

घरों में अपने इस सुशय को बस तुमही बसाओ जी ॥ ६८ ॥

वृषभ और गायका वध भी लिखा है तेरे स्वामी ने ।

छिपाने से कहीं छिपता है कितना ही छुपाओ जी ॥ ६९ ॥

न हो घां आघ मन भी जो तो फिर मुरदे को मत फुंको ।

उसे जगल में जाकर दूर छोड़ आमां सड़ाओ जी ॥ ७० ॥

मृतक की मस्म और अस्थी को बाग और खेत में डालो ।

नहीं लज्जा कि तुम वृद्धों को यूँ धूली उड़ाओ जी ॥ ७१ ॥

यह देखो तो लिखा क्या है मला उस बुद्धिसागर ने ।

कि हो जब गर्भ में वेटा उसे कपड़े पिन्ढाओ जी ॥ ७२ ॥

जनेगी पुत्र वह ऐसा कि होगा वेद का ब्राता ।

जो मान और मांस पत्नीको पका कर तुम खिलाओ जी ॥ ७३ ॥

लिखा है गर्भ धारण में जो निन्दित रात्रि माठ उसने ।

६८ सत्यार्थ० १८७५ का पृष्ठ ४५ ।

६९ उक्त सत्यार्थ० का पृ० ३०३ ।

७० संस्कारविधि मुद्रित संवत् १६३३ का पृष्ठ १४१ ।

७१ उक्त संस्कार विधि का पृष्ठ १५० ।

७२ उक्त संस्कारविधि का पृष्ठ ४१ ।

७३ उक्त संस्कारविधि का पृ० ११ ।

मनु के लेख से कोई हमें-आकर गिनाओ जी ॥ ७४ ॥
ओ गणना सृष्टि वर्णों के लिखी मत शेष की उसने ।
नहीं वहां मूल लाखों श्री करोहों की बनाओ जी ॥ ७५ ॥
अथर्वण वेद में हम को दिखाओ मन्त्र गायत्री ।
भृति छान्दोग्य में श्रद्धे कहां है ये बनाओ जी ॥ ७६ ॥
तुम्हारी रत्नमाला में लिखा है आर्य का लक्षण ।
किसीके कर्म और गुण तो जरा उससे मिलाओ जी ॥ ७७ ॥
पर खां पर पुरुष संगम ही की व्यभिचार कहते हो ।
नहीं व्यभिचार पति ग्यारह जो पत्नी को कराओ जी ॥ ७८ ॥
वचाये प्राण स्वामी जी ने कैसे रीछ से वन में ।
हमें वृत्तान्त वह भी तो सुनाओ जी सुनाओ जी ॥ ७९ ॥
तुम्हीं कहते हो स्वामी जी ने मुरदा चीर डाला था ।
उन्हें इस कर्म और गुण की कोई पंढरी दिलाओ जी ॥ ८० ॥

७४ उक्त संस्कारविधि का पृष्ठ १३ ।

७५ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पृष्ठ । २३ । २४ ।

७६ पंचमहायज्ञविधि मुद्रित संवत् १९३४ का पृष्ठ २६ ।

फिर सत्यार्थप्रकाश १८७५ का पृष्ठ १४७ ।

७७ । ७८-आर्योद्देश्य रत्नमाला का पृष्ठ १२ । २० ॥

७९ दयानन्द का जीवनचरित्र दलपतराय लिखित पृष्ठ ६१ ।

८० उक्त जीवनचरित्र का पृष्ठ ५६ । ५७ ।

वृषभ की मूर्ति में घुस कर रहे जो आदमी छिपकर ।
कहां पर मूर्ति है ऐसी हमें चलकर दिखाओ जी ॥ ८१ ॥
पिये थां भांग वह ऐसी दही खाने से जो उतरी ।
कथन पर ऐसे भंगड़ के न धर्म अपना गचाओ जी ॥ ८२ ॥
लिखा जो चार वेदों में उभी को सत्य तुम जानो ।
लिखा जो कुछ कि स्वामीजीने वह उनमें दिखाओ जी ॥ ८३ ॥
कहां वहां दायभाग और दण्डके धनकी व्यवस्था है ।
विधि वल्लिर्विश्व और संध्या की ढूंढो तो न पाओ जी ॥ ८४ ॥
संपिंड और गोत्र का बतला कहां है त्याग वेदों में ।
पता आठों विवाहों का संलक्षण वां लगाओ जी ॥ ८५ ॥
कहां है व्याख्या/वेदों में सोलह संस्कारों की ।
दिखाओ या कि लज्जित होके शिर अपना झुकाओ जी ॥ ८६ ॥
हमारे आक्षेपों का तो उत्तर मान लेना है ।
ब्रूया तुम झूठ लिख २ कर नये गुल क्यों खिलाओ जी ॥ ८७ ॥
नहीं है पुण्य सद्भाषण समान इसको करो धारण ।
नहीं है पाप अनृतसम इसे मन से हटाओ जी ॥ ८८ ॥
किसी की वस्तु जो कुछ लो बिना मांगे ही लौटा दो ।
न परधन और परस्त्री में कभी मन को चलाओ जी ॥ ८९ ॥

८१ । ८२ उक्त जीवनचरित्र का पृष्ठ ६० ।

किसी का वाक्य के वाणों से मर्मस्थान मत छोड़ो ।
मधुर वाणी से निज आशय को समझाओ बुझाओ जी ॥६०॥
पराये मांस को खाकर जो तन अपना बढ़ाता है ।
नरक का वह कमाता है न जीवों को सताओ जी ॥ ६१ ॥

सनातन धर्मावलम्बियों से निवेदन ॥

जनेऊ छोड़कर तुमने गला कंठी से बंधवाया ।
करो उपनयन अथवा नाम शूद्रों में लिखाओ जी ॥ ६२ ॥
जो धन बेटी पै लेते हैं निकाला उनको जाती से ।
है यह भी काम खोटा ही सगाई जो छुड़ाओ जी ॥ ६३ ॥
फिरां हो पूजते कब्रोंको क्या अज्ञान छाया है ।
विवाह की आदि में दूल्हको क्यों खर पर चढ़ाओ जी ॥६४॥
जुए का खेलना छोड़ो जी वेश्याओं से मुंह मोड़ो ।
बड़ा दुष्कर्म है लड़कों से प्रीति मत बढ़ाओ जी ॥ ६५ ॥
करें खरडन तुम्हारा और छलकर तुम से धन मांगे ।
उन्हें देदेके तुम चन्दा वृथा धन क्यों लुटाओ जी ॥ ६६ ॥
जो रक्षा धर्म की चाहो मेरे ग्रन्थों को फहलाओ ।
नहीं फिर मन में पछिताओ कुढ़ो और दुःख पाओजी ॥६७॥
दयानन्दी गपोड़ों से बचाओ धर्म को अपने ।

जो मिथ्या लेख हैं उनके वह सबको तुम सुनाओ जी ॥६८॥
कलि में धर्म के घातक सहस्रों ही प्रकट होंगे ।

जहां तक धन सके तुम से इसे उन से बचाओ जी ॥ ६९ ॥

किये क्या दान और जप तप किये क्या मन्दिर स्थापन ।

न जय तक धर्म की रक्षा का तुम धीड़ा उठाओ जी ॥१००॥

करो मिथ्यार्थ का झण्डन मेरे लेखों को पढ़ कर ।

और अपने पुत्रपौत्रोंकोभी समझाकर पढ़ाओ जी ॥१०१॥

ये पुस्तक भाप छुपवाओ जहां तहां मुझ घटवाओ ।

परमेश लोक में पाओ कि धर्म अपना बचाओ जी ॥ १०२ ॥

धनी धर्मात्मा पुरुषों से है ये ही विनय मेरी ।

जरा तो धर्म की रक्षा में धन अपना लगाओ जी ॥ १०३ ॥

जगत् के जाल और फन्दों से ईश्वर ने बचाया है ।

अगजाय उससिवा मस्तककिसीको क्यों नवाओ जी ॥१०४॥

॥ इति ॥



